



Regd. & Corporate Office : 401-402, Lusa Tower
Azadpur Commercial Complex, Delhi-110 033
Telefax : +91 1127679700-05 (6 Lines)
e mail : info@insecticidesindia.com
www.insecticidesindia.com
CIN : L65991DL1996PLC083909



Ref: IIL/SE/2025/2905/01

Dated: May 29, 2025

The Manager

Listing Compliance Department BSE Limited (Through BSE Listing Centre) Scrip Code: 532851	Listing Compliance Department National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS) Symbol: INSECTICID
--	--

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper advertisement of Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2025.

Pursuant to the provisions of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are pleased to enclosed herewith the extract of the newspaper advertisement published on May 29, 2025 in Business Standard (English Daily) and Business Standard (Hindi Daily) for the Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2025, of the Company. The aforesaid results have been approved by the Board of Directors in its meeting held on May 28, 2025.

This will also be hosted on the company's website at www.insecticidesindia.com.

This is for information and records.

Thanking You,
For Insecticides (India) Limited

(Sandeep Kumar)
Company Secretary & CCO

Encl: As above

Global temperature rise may breach 1.5°C limit by 2029: WMO

PUJA DAS
New Delhi, 28 May

A recent report by the World Meteorological Organization (WMO) on Wednesday has sounded an alarm on climate change, warning that there is a 70 per cent chance of global temperatures exceeding the 1.5°Celsius threshold above pre-industrial levels between 2025 and 2029.

This comes at a time when 180 of the 195 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) countries are yet to submit their next round of nationally determined contributions (NDCs) or climate plans for 2031-35 before the 30th Conference of the Parties (COP30). Climate plans are crucial to limit global temperature rise to 1.5°C.

The warning follows the European Union's Earth Observation Programme Copernicus Climate Change Service's March forecast on the global average temperature breaching the 1.5°C long-term global warming threshold by September 2029 if the current warming trend continues.

The annual average global mean near-surface temperature for each year between 2025 and 2029 is predicted to be between 1.2°C and 1.9°C higher than the average for 1850-1900, according to the report titled 'WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2023-2029)'. The report emphasised the need for continued climate monitoring for informed decision



Facing heat

- Avg. global temperature predicted to be between 1.2°C and 1.9°C higher than avg. for 1850-1900
- 80% chance of at least one of next 5 years surpassing 2024 temperature
- Predicted precipitation

patterns for May-Sep 2025-2029 to be wetter than average

- 1% chance of at least one year exceeding 2°C of warming in the next five years
- 2024 has been the hottest year on record so far

making and adapting to the growing effect of climate change. It also said that there is an 80 per cent chance that at least one of the next five years will surpass 2024 as the warmest on record.

Although unlikely, there is also a 1 per cent chance of at least one year exceeding 2°C of warming in the next five years.

However, long-term warming (averaged over decades) remains below 1.5°C.

Citing the 10 warmest years on record, WMO deputy secretary general Ko Barrett said that the new report provides no sign of respite over the coming years. He said, "...this means that there will be a growing negative impact on

our economies, our daily lives, our ecosystems and our planet."

"Continued climate monitoring and prediction is essential to provide decision-makers with science-based tools and information to help us adapt," Barrett said in a statement.

The year 2024 was not only the hottest year on record but also the first year to breach 1.5°C above the 1850-1900 baseline. The 1.5°C threshold is a target that countries agreed to at the Paris climate conference in 2015 to avoid the worst effect of climate change.

A permanent breach of the 1.5°C limit specified in the Paris Agreement refers to long-term warming over 20 years.

Govt directs e-commerce firms to audit dark patterns

AKSHARA SRIVASTAVA
New Delhi, 28 May

The government on Wednesday asked e-commerce platforms to conduct annual internal audits to make sure that they are not resorting to manipulative tactics to mislead consumers and prevent them from making right choices — a technique commonly referred to as dark pattern — and submit reports to the Department of Consumer Affairs (DoCA).

It comes just a week after Uber was issued a notice by the Central Consumer Protection Authority (CCPA) over its "advance tip" feature. And a day later, on Thursday, Consumer Affairs Minister Pralhad Joshi said that the government was also probing other apps

like Ola and Rapido. According to Pralhad Joshi, Minister of Consumer Affairs, the ministry will also constitute a joint working group along with stakeholders to look into the use of dark patterns.

On Wednesday, Union Minister Joshi held a meeting with more than 50 e-commerce players on the issue.


He said the ministry will also form a joint working group along with stakeholders to look into the use of dark patterns. "These are deliberate actions by platforms and the usage is not happening on a small scale. We have asked platforms for full compliance with issued

guidelines, and to also ensure that no third-party merchants on their platforms use these patterns that can make a consumer feel trapped," he said.

During the meeting, executives from the firms were sensitised on use of dark patterns, practices or deceptive design patterns that mislead or trick users, essentially subverting or impairing their autonomy.

This comes as part of the ministry's move to clamp down on the rampant use of such patterns. The government had notified guidelines for the prevention and regulation of dark patterns in 2023.

Since these guidelines were issued, the CCPA has sent as many as 11 notices to firms across sectors like pharmaceuticals, ticketing platforms on the use of such patterns.



TECHDIGEST mybs.in/tech

Motorola launches Razr 60 in India

Motorola has launched its flip-style foldable Razr 60 smartphone in India. Priced at ₹49,999, the smartphone is powered by the MediaTek Dimensity 7400X chip. It sports a 3.6-inch pOLED external screen that also offers access to Google Gemini AI features. The Razr 60 will go on sale starting June 4.



Samsung releases One UI 8 beta

Samsung has rolled out the beta version of One UI 8, the company's first software update built on Android 16. This beta is currently accessible for the Galaxy S25 lineup, with the exception of the Galaxy S25 Edge.

Logitech unveils wireless charging pad for mice

Logitech G, the gaming arm of Logitech, has unveiled a new wireless charging mouse pad called Powerplay 2. Designed to charge compatible mice both during use and while idle, the Powerplay 2 is priced at ₹13,995. It provides an uninterrupted power supply.

Suraksha

Clinic & Diagnostics


SURAKSHA DIAGNOSTIC LIMITED

Registered Office: Plot No. DG-12/1, Action Area 1D,
Premises No. 02-0327, New Town, Rajarhat, Kolkata-700156, West Bengal, India.
CIN: L85110WB2005PLC102265 Website: www.surakshanet.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on 28 May 2025 has approved the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2025.


The results along with Audit Report issued by the Statutory Auditors of the Company is available at www.surakshanet.com and can also be accessed by scanning the QR code below:



Place: Kolkata
Date: 28 May 2025

By order of the Board of Directors
For Suraksha Diagnostic Limited
Sd/-
Dr. Somnath Chatterjee
Chairman & Joint Managing Director
DIN: 00137075

APPOINTMENTS



SIDBI Venture Capital Limited
2nd Floor, Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051


Appointment of Senior Vice President / Vice President / Investment Principal / Senior Investment Associate / Investment Associate / Investment Analyst / Company Secretary cum Compliance Officer / Legal Officer

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL), a wholly owned subsidiary of Small Industries Development Bank of India (SIDBI), is looking for suitable candidates for the following positions:

Sl. No.	Post
1	Senior Vice President / Vice President
2	Investment Principal
3	Senior Investment Associate / Investment Associate / Investment Analyst
4	Company Secretary cum Compliance Officer
5	Legal Officer

For details, please visit "career" page on our website www.sidbiventure.co.in. Interested candidates may send their Biodata / Application to recruitment@sidbiventure.co.in. Modification / Corrigendum, if any will be issued only on SVCL's website.

APPOINTMENTS



SIDBI Venture Capital Limited
2nd Floor, Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Appointment of Senior Vice President / Vice President / Investment Principal / Senior Investment Associate / Investment Associate / Investment Analyst / Company Secretary cum Compliance Officer / Legal Officer

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL), a wholly owned subsidiary of Small Industries Development Bank of India (SIDBI), is looking for suitable candidates for the following positions:

Sl. No.	Post
1	Senior Vice President / Vice President
2	Investment Principal
3	Senior Investment Associate / Investment Associate / Investment Analyst
4	Company Secretary cum Compliance Officer
5	Legal Officer

For details, please visit "career" page on our website www.sidbiventure.co.in. Interested candidates may send their Biodata / Application to recruitment@sidbiventure.co.in. Modification / Corrigendum, if any will be issued only on SVCL's website.

APPOINTMENTS

NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT

Human Resources Department, Mumbai
www.nabfid.org

RECRUITMENT OF OFFICERS ON FIXED TERM CONTRACT BASIS

National Bank for Financing Infrastructure and Development, the Institution, set up under the Act of Parliament, 2021 is the principal entity for infrastructure financing in the country. The entity is regulated and supervised as an All-India Financial Institution (AIFI) by the Reserve Bank of India (RBI). The Institution is poised to play an extremely crucial role in supporting infrastructure funding by driving the development of innovative financing instruments and development of bond and derivatives markets and promoting best practices in financing and data-driven risk management.

Online Applications are invited from Indian Citizens for appointment in VP Grade (Fixed Term on Contract Basis) as per details given below:

Post/Grade	Advt. No	Total Vacancy	Application Start date
(i) VP-Company Secretary (ii) VP-Corporate Strategy	NaBFID/REC/VP/2025-26/02	02	30-May-25

- For eligibility criteria (age, experience, job profile etc.), vacancy and other details, please visit the Institution's website <https://nabfid.org/careers> or scan the QR code.
- Remuneration will be offered based on qualification, experience, suitability, last drawn salary, market benchmark etc. For other information, please refer detailed advertisement on the Institution's website.
- Any addendum / corrigendum / modification in this regard will ONLY be available on the Institution's website.
- Selection will be solely at the discretion of the Institution and its decision will be final.



Mumbai: 29.05.2025

Head – Human Resources





INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD.
(A Government of India Enterprise)

DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER (DY CEO) IN IIFCL PROJECTS LIMITED (IPL)

IIFCL is a wholly owned Government of India company set up in 2006 to provide long-term financial assistance to viable infrastructure projects. As a long-term lending institution, IIFCL is amongst the most diversified public sector infrastructure lender in terms of eligible infrastructure sub-sectors and product offerings.

IIFCL Projects Ltd. (IPL) was established as a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) to provide infrastructure project development transaction structuring and advisory services to Central/State Government, local bodies and other stakeholders for promotion and development of infrastructure in India. IPL came into operation on March 30, 2012 and has established itself in the areas of Project Appraisal, Debt Syndication, Transaction Advisory Services, Project Development and related areas.


IIFCL invites applications for the below posts:


Sl. No.	Post	Type of Post	Total No. of Vacancies
1.	Deputy Chief Executive Officer (DY CEO)	Contractual	01

Last date of receipt of application via post 21 days from the date of Advertisement

For detailed advertisement, please visit our website <https://www.iifcl.in/careers>.

Registered Office: P-1, Phase, Plot A & B, Office Block-3, NHCC Tower, East Kirti Nagar, New Delhi - 110023





CIN: L65991DL1996PLC083909; Regd. Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi - 110 033; Telefax.: 011-27679700 - 05
Website: www.insecticidesindia.com; E-mail: investor@insecticidesindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025 (₹ In Lacs, Except EPS)

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended	
		31-03-25 (Audited)	31-12-24 (Unaudited)	31-03-24 (Audited)	31-03-25 (Audited)	31-03-24 (Audited)	31-03-25 (Audited)	31-03-24 (Audited)	31-03-25 (Audited)
1	Total Income from Operations	36,208.05	35,943.63	27,706.03	2,00,949.16	1,97,589.22	36,177.60	35,785.97	2,00,694.51
2	Net Profit for the year (before Tax)	2,225.13	1,993.59	415.04	19,028.49	13,257.99	2,228.16	351.16	19,276.94
3	Net Profit for the year (after Tax)	1,402.49	1,500.14	807.92	13,976.56	10,262.55	1,389.11	1,736.50	14,201.86
4	Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,324.86	1,430.10	935.59	13,848.59	10,429.49	1,314.98	1,662.99	14,067.69
5	Paid-Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	2,909.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78
6	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Financial Year	-	-	-	1,05,269.25	98,150.64	-	-	1,05,549.60
7	Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹10/- each)	4.82	5.15	2.73	47.61	34.67	4.77	5.96	48.38
	Basic	4.82	5.15	2.73	47.61	34.67	4.77	5.96	48.38
	Diluted	4.82	5.15	2.73	47.61	34.67	4.77	5.96	48.38

NOTES:

- The above is an extract of the detailed Format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full Format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.insecticidesindia.com.
- The above Audited Financial Results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and subsequent amendments thereto.
- The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 30, 2024, approved Buyback of 5,00,000 fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- each at a price of ₹ 1000/- per equity share (being 1.69% of the total paid up equity capital of the Company) for an aggregate consideration not exceeding ₹ 5,00,000 Lacs (excluding transaction cost and any other expenses incurred for the buy back) representing 4.97% and 4.96% of the aggregate of the paid up share capital and free reserves (including securities premium) as per the audited standalone and consolidated financial statements respectively as on March 31, 2024. Further, on the settlement date i.e. September 30, 2024, Company has made payment of ₹ 5,00,000 Lacs to those shareholders of securities whose offer has been accepted. The issued capital of the Company pre-buyback was 2,95,97,837 and post-buyback is 2,90,97,837. However, as on September 30, 2024, the number of shares remain 2,95,97,837 as the same were extinguished on October 05, 2024. In accordance with section 68 of the Companies Act, 2013, the Company has created 'Capital Redemption Reserve' of ₹ 50 Lacs equal to the nominal value of the shares bought back as an appropriation from general reserve.
- The Board of Directors of Insecticides (India) Limited at its meeting held on August 09, 2024 had approved the dissolution/liquidation of its wholly owned subsidiary IIL Overseas DMCC, Dubai. Accordingly, IIL Overseas DMCC has filed the application for winding up / dissolution with DMCCA (Office of the Registrar of Companies of Dubai Multi Commodities Centre Authority) for which approval is yet to be received as of March 31, 2025.
- The Board of Directors of the Company, at its meeting held on November 11, 2024, approved the acquisition of 100% equity shares of Kaeros Research Private Limited ("Target Company") from its existing shareholders through a share purchase agreement ("SPA") between the existing shareholders and the Company. Consequently, target company becomes the wholly owned subsidiary of Insecticides (India) Limited.

For and on behalf of the Board of Directors
Insecticides (India) Limited
Sd/-
(Rajesh Kumar Aggarwal)
Managing Director
DIN-00576872

DRIVEN BY BIG VISION. DEFINED BY BIG CHANGE.



HAR KADAM HUM KADAM

Global temperature rise may breach 1.5°C limit by 2029: WMO

PUJA DAS
New Delhi, 28 May

A recent report by the World Meteorological Organization (WMO) on Wednesday has sounded an alarm on climate change, warning that there is a 70 per cent chance of global temperatures exceeding the 1.5°Celsius threshold above pre-industrial levels between 2025 and 2029.

This comes at a time when 180 of the 195 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) countries are yet to submit their next round of nationally determined contributions (NDCs) or climate plans for 2031-35 before the 30th Conference of the Parties (COP30). Climate plans are crucial to limit global temperature rise to 1.5°C.

The warning follows the European Union's Earth Observation Programme Copernicus Climate Change Service's March forecast on the global average temperature breaching the 1.5°C long-term global warming threshold by September 2029 if the current warming trend continues.

The annual average global mean near-surface temperature for each year between 2025 and 2029 is predicted to be between 1.2°C and 1.9°C higher than the average for 1850-1900, according to the report titled 'WMO Global Annual to Decadal Climate Update (2023-2029)'. The report emphasised the need for continued climate monitoring for informed decision



Facing heat

- Avg. global temperature predicted to be between 1.2°C and 1.9°C higher than avg. for 1850-1900
- 80% chance of at least one of next 5 years surpassing 2024 temperature
- Predicted precipitation

patterns for May-Sep 2025-2029 to be wetter than average

- 1% chance of at least one year exceeding 2°C of warming in the next five years
- 2024 has been the hottest year on record so far

making and adapting to the growing effect of climate change. It also said that there is an 80 per cent chance that at least one of the next five years will surpass 2024 as the warmest on record.

Although unlikely, there is also a 1 per cent chance of at least one year exceeding 2°C of warming in the next five years.

However, long-term warming (averaged over decades) remains below 1.5°C.

Citing the 10 warmest years on record, WMO deputy secretary general Ko Barrett said that the new report provides no sign of respite over the coming years. He said, "...this means that there will be a growing negative impact on

our economies, our daily lives, our ecosystems and our planet."

"Continued climate monitoring and prediction is essential to provide decision-makers with science-based tools and information to help us adapt," Barrett said in a statement.

The year 2024 was not only the hottest year on record but also the first year to breach 1.5°C above the 1850-1900 baseline. The 1.5°C threshold is a target that countries agreed to at the Paris climate conference in 2015 to avoid the worst effect of climate change.

A permanent breach of the 1.5°C limit specified in the Paris Agreement refers to long-term warming over 20 years.

Govt directs e-commerce firms to audit dark patterns

AKSHARA SRIVASTAVA
New Delhi, 28 May

The government on Wednesday asked e-commerce platforms to conduct annual internal audits to make sure that they are not resorting to manipulative tactics to mislead consumers and prevent them from making right choices — a technique commonly referred to as dark pattern — and submit reports to the Department of Consumer Affairs (DoCA).

It comes just a week after Uber was issued a notice by the Central Consumer Protection Authority (CCPA) over its "advance tip" feature. And a day later, on Thursday, Consumer Affairs Minister Pralhad Joshi said that the government was also probing other apps

like Ola and Rapido.

On Wednesday, Union Minister Joshi held a meeting with more than 50 e-commerce players on the issue.


He said the ministry will also form a joint working group along with stakeholders to look into the use of dark patterns. "These are deliberate actions by platforms and the usage is not happening on a small scale. We have asked platforms for full compliance with issued

guidelines, and to also ensure that no third-party merchants on their platforms use these patterns that can make a consumer feel trapped," he said.

During the meeting, executives from the firms were sensitised on use of dark patterns, practices or deceptive design patterns that mislead or trick users, essentially subverting or impairing their autonomy.

This comes as part of the ministry's move to clamp down on the rampant use of such patterns. The government had notified guidelines for the prevention and regulation of dark patterns in 2023.

Since these guidelines were issued, the CCPA has sent as many as 11 notices to firms across sectors like pharmaceuticals, ticketing platforms on the use of such patterns.



TECHDIGEST mybs.in/tech

Motorola launches Razr 60 in India

Motorola has launched its flip-style foldable Razr 60 smartphone in India. Priced at ₹49,999, the smartphone is powered by the MediaTek Dimensity 7400X chip. It sports a 3.6-inch pOLED external screen that also offers access to Google Gemini AI features. The Razr 60 will go on sale starting June 4.



Samsung releases One UI 8 beta

Samsung has rolled out the beta version of One UI 8, the company's first software update built on Android 16. This beta is currently accessible for the Galaxy S25 lineup, with the exception of the Galaxy S25 Edge.

Logitech unveils wireless charging pad for mice

Logitech G, the gaming arm of Logitech, has unveiled a new wireless charging mouse pad called Powerplay 2. Designed to charge compatible mice both during use and while idle, the Powerplay 2 is priced at ₹13,995. It provides an uninterrupted power supply.

Suraksha

Clinic & Diagnostics


SURAKSHA DIAGNOSTIC LIMITED

Registered Office: Plot No. DG-12/1, Action Area 1D,
Premises No. 02-0327, New Town, Rajarhat, Kolkata-700156, West Bengal, India.
CIN: L85110WB2005PLC102265 Website: www.surakshanet.com

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The Board of Directors of the Company, at their meeting held on 28 May 2025 has approved the audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2025.

The results along with Audit Report issued by the Statutory Auditors of the Company is available at www.surakshanet.com and can also be accessed by scanning the QR code below:



Place: Kolkata
Date: 28 May 2025

By order of the Board of Directors
For Suraksha Diagnostic Limited
Sd/-
Dr. Somnath Chatterjee
Chairman & Joint Managing Director
DIN: 00137075

APPOINTMENTS

SIDBI Venture Capital Limited
2nd Floor, Swavalamban Bhavan, C-11, G-Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Appointment of Senior Vice President / Vice President / Investment Principal / Senior Investment Associate / Investment Associate / Investment Analyst / Company Secretary cum Compliance Officer / Legal Officer

SIDBI Venture Capital Limited (SVCL), a wholly owned subsidiary of Small Industries Development Bank of India (SIDBI), is looking for suitable candidates for the following positions:

Sl. No.	Post
1	Senior Vice President / Vice President
2	Investment Principal
3	Senior Investment Associate / Investment Associate / Investment Analyst
4	Company Secretary cum Compliance Officer
5	Legal Officer

For details, please visit "career" page on our website www.sidbiventure.co.in. Interested candidates may send their Biodata / Application to recruitment@sidbiventure.co.in. Modification / Corrigendum, if any will be issued only on SVCL's website.

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

APPOINTMENTS

NATIONAL BANK FOR FINANCING INFRASTRUCTURE AND DEVELOPMENT

Human Resources Department, Mumbai
www.nabfid.org

RECRUITMENT OF OFFICERS ON FIXED TERM CONTRACT BASIS

National Bank for Financing Infrastructure and Development, the Institution, set up under the Act of Parliament, 2021 is the principal entity for infrastructure financing in the country. The entity is regulated and supervised as an All-India Financial Institution (AIFI) by the Reserve Bank of India (RBI). The Institution is poised to play an extremely crucial role in supporting infrastructure funding by driving the development of innovative financing instruments and development of bond and derivatives markets and promoting best practices in financing and data-driven risk management.

Online Applications are invited from Indian Citizens for appointment in VP Grade (Fixed Term on Contract Basis) as per details given below:

Post/Grade	Advt. No	Total Vacancy	Application Start date
(i) VP-Company Secretary (ii) VP-Corporate Strategy	NaBFID/REC/VP/2025-26/02	02	30-May-25

- For eligibility criteria (age, experience, job profile etc.), vacancy and other details, please visit the Institution's website <https://nabfid.org/careers> or scan the QR code.
- Remuneration will be offered based on qualification, experience, suitability, last drawn salary, market benchmark etc. For other information, please refer detailed advertisement on the Institution's website.
- Any addendum / corrigendum / modification in this regard will ONLY be available on the Institution's website.
- Selection will be solely at the discretion of the Institution and its decision will be final.

Mumbai: 29.05.2025

Head – Human Resources



INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD.

(A Government of India Enterprise)

DIRECT RECRUITMENT FOR THE POST OF DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER (DY CEO) IN IIFCL PROJECTS LIMITED (IIFCL)

IIFCL is a wholly owned Government of India company set up in 2006 to provide long-term financial assistance to viable infrastructure projects. As a long-term lending institution, IIFCL is amongst the most diversified public sector infrastructure lender in terms of eligible infrastructure sub-sectors and product offerings.

IIFCL Projects Ltd. (IIFCL) was established as a wholly owned subsidiary of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) to provide infrastructure project development transaction structuring and advisory services to Central/State Government, local bodies and other stakeholders for promotion and development of infrastructure in India. IIFCL came into operation on March 30, 2012 and has established itself in the areas of Project Appraisal, Debt Syndication, Transaction Advisory Services, Project Development and related areas.

IIFCL invites applications for the below posts:

Sl. No.	Post	Type of Post	Total No. of Vacancies
1.	Deputy Chief Executive Officer (DY CEO)	Contractual	01

Last date of receipt of application via post: 21 days from the date of Advertisement

For detailed advertisement, please visit our website <https://www.iifcl.in/careers>.

Registered Office: P-1, Phase, Plot A & B, Office Block-3, MIDC Tower, East Khand Nagar, New Delhi - 110023

CIN: L65991DL1996PLC083909; Regd. Office: 401-402, Lusa Tower, Azadpur Commercial Complex, Delhi - 110 033; Telefax.: 011-27679700 - 05
Website: www.insecticidesindia.com; E-mail: investor@insecticidesindia.com

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

Sl. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended			
		31-03-25 (Audited)	31-12-24 (Unaudited)	31-03-24 (Audited)	31-03-25 (Audited)	31-03-24 (Audited)	31-03-25 (Audited)	31-03-24 (Audited)	31-03-25 (Audited)		
1	Total Income from Operations	36,208.05	35,943.63	27,706.03	2,00,949.16	1,97,589.22	36,177.60	35,785.97	27,701.17	2,00,694.51	1,97,578.46
2	Net Profit for the year (before Tax)	2,225.13	1,993.59	415.04	19,028.49	13,257.99	2,202.33	2,228.16	351.16	19,276.94	13,188.81
3	Net Profit for the year (after Tax)	1,402.49	1,500.14	807.92	13,976.56	10,262.55	1,389.11	1,736.50	752.09	14,201.86	10,207.45
4	Total Comprehensive Income for the year (Comprising Profit for the year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,324.86	1,430.10	935.59	13,848.59	10,429.49	1,314.98	1,662.99	889.14	14,067.69	10,383.25
5	Paid-Up Equity Share Capital (Face Value of ₹10/- each)	2,909.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,909.78	2,959.78	2,909.78	2,959.78
6	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the Previous Financial Year	-	-	-	1,05,269.25	98,150.64	-	-	1,05,549.60	98,211.89	-
7	Earnings Per Equity Share (Face Value of ₹10/- each)	4.82	5.15	2.73	47.61	34.67	4.77	5.96	2.54	48.38	34.49
	Basic	4.82	5.15	2.73	47.61	34.67	4.77	5.96	2.54	48.38	34.49
	Diluted										

NOTES:

- The above is an extract of the detailed Format of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full Format of the Audited Standalone and Consolidated Financial Results and Explanatory Notes are available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.insecticidesindia.com.
- The above Audited Financial Results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS), the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), as applicable and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"). The Ind AS are prescribed under Section 133 of the Act read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and subsequent amendments thereto.
- The Board of Directors of the Company at its meeting held on August 30, 2024, approved Buyback of 5,00,000 fully paid-up equity shares of face value of ₹ 10/- each at a price of ₹ 1000/- per equity share (being 1.69% of the total paid up equity capital of the Company) for an aggregate consideration not exceeding ₹ 5,00,000 Lacs (excluding transaction cost and any other expenses incurred for the buy back) representing 4.97% and 4.96% of the aggregate of the paid up share capital and free reserves (including securities premium) as per the audited standalone and consolidated financial statements respectively as on March 31, 2024. Further, on the settlement date i.e. September 30, 2024, Company has made payment of ₹ 5,00,000 Lacs to those shareholders of securities whose offer has been accepted. The issued capital of the Company pre-buyback was 2,95,97,837 and post-buyback is 2,90,97,837. However, as on September 30, 2024, the number of shares remain 2,95,97,837 as the same were extinguished on October 05, 2024. In accordance with section 68 of the Companies Act, 2013, the Company has created 'Capital Redemption Reserve' of ₹ 50 Lacs equal to the nominal value of the shares bought back as an appropriation from general reserve.
- The Board of Directors of Insecticides (India) Limited at its meeting held on August 09, 2024 had approved the dissolution/liquidation of its wholly owned subsidiary ILL Overseas DMCC, Dubai. Accordingly, ILL Overseas DMCC has filed the application for windup / dissolution with DMCCA (Office of the Registrar of Companies of Dubai Multi Commodities Centre Authority) for which approval is yet to be received as of March 31, 2025.
- The Board of Directors of the Company, at its meeting held on November 11, 2024, approved the acquisition of 100% equity shares of Kaeros Research Private Limited ("Target Company") from its existing shareholders through a share purchase agreement ("SPA") between the existing shareholders and the Company. Consequently, target company becomes the wholly owned subsidiary of Insecticides (India) Limited.

For and on behalf of the Board of Directors
Insecticides (India) Limited
Sd/-
(Rajesh Kumar Aggarwal)
Managing Director
DIN-00576872

Place: Delhi
Date: 28/05/2025

DRIVEN BY BIG VISION. DEFINED BY BIG CHANGE.

HAR KADAM HUM KADAM